

रोगियों और माता-पिता के लिए टीकाकरण रजिस्ट्री का नोटिस

टीकाकरण या टीकों से गंभीर रोगों से सुरक्षा मिलती है। तपेदिक (TB) स्क्रीन टेस्ट से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपको TB का संक्रमण है या नहीं और स्कूल या कार्यस्थल में इसकी जरूरत हो सकती है। आपको मिल चुके टीकों/ आपकी हो चुकी TB की जांच को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। एक से ज्यादा डॉक्टरों से इलाज प्राप्त होने पर ये खासतौर पर और भी मुश्किल हो जाता है। आज, डॉक्टर टीकों और TB जांच को ट्रैक करने के लिए इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री नामक एक सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर बदलने पर आपका नया डॉक्टर टीकों/ TB के जांच के रिकॉर्ड्स देखने के लिए रजिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकता है। यह आपका अधिकार है कि आप कैलिफोर्निया इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री (CAIR) में आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकने वाले व्यक्तियों को सीमित कर सकें।

रजिस्ट्री से आपको कैसे मदद मिलती है?

- इसमें सभी टीकों और TB जांचों (त्वचा की जांच/ छाती के एक्स-रे) को ट्रैक किया जाता है, ताकि आप कुछ चुक ना जाएँ या ऐसा बहुत बार ना करें
- आपको या आपके बच्चे को टीकों की जरूरत पड़ने पर आपको रिमाइंडर भेजती है
- आपको डॉक्टर से टीके/ TB रिकॉर्ड की कॉपी देती है
- शिशु देखभाल, स्कूल, या नई नौकरी शुरू करने के लिए जरूरी होने पर टीकों/ TB जांचों का प्रमाण दे सकती है

रजिस्ट्री से आपकी स्वास्थ्य देखभाल टीम को क्या मदद मिलती है?

डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य योजनाएं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां निम्न करने के लिए रजिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं:

- यह देखने के लिए कि किन टीकों/ TB जांचों की जरूरत है
- आपके समुदाय में बीमारी की रोकथाम के लिए
- जरूरी टीकों के बारे में आपको याद दिलाने के लिए
- रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद के लिए

क्या स्कूल या अन्य प्रोग्राम्स रजिस्ट्री को देख सकते हैं?

हाँ, लेकिन यह सीमित होता है। कैलिफोर्निया कानून के अंतर्गत अनुमत स्कूल, शिशु देखभाल, और अन्य एजेंसियां निम्न कर सकते हैं:

- बच्चों के लिए जरूरी टीकों/ TB जांचों को देख सकते हैं
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चे शिशु देखभाल या स्कूल आरंभ करने के लिए जरूरी टीकों और TB जांचों की आवश्यकता की पूर्ति करते हों

रजिस्ट्री में किस जानकारी को साझा किया जा सकता है?

- रोगी का नाम, लिंग, और जन्मतिथि
- रोगियों की पहचान के लिए सीमित जानकारी
- माता-पिता या अभिभावक का नाम
- रोगी के टीकों/ TB जांचों या चिकित्सीय छूट के बारे में विवरण

रजिस्ट्री में प्रविष्ट जानकारी को अन्य गोपनीय चिकित्सीय जानकारी के रूप में ही देखा जाता है। रजिस्ट्री का दुरुपयोग कानून के अनुसार दंडनीय है। कैलिफोर्निया कानून के अंतर्गत केवल डॉक्टर का कार्यालय, स्वास्थ्य योजना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ही आपका पता और फ़ोन नंबर देख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रजिस्ट्री को देख सकते हैं।

रोगी और माता-पिता के अधिकार

आपके प्रदाता से निम्न के बारे में निवेदन करना आपका कानूनन अधिकार है:

- अन्य प्रदाताओं और स्कूलों को आपके (या आपके बच्चे के) रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स देखने से रोकना
- टीकों के अपॉइंटमेंट के रिमाइंडर्स ना भेजना
- आपके या आपके बच्चे के टीके/ TB जांच के रिकॉर्ड्स की कॉपी
- आपके रिकॉर्ड्स किसने देखे हैं और किसी भी गलती को सुधारना

CAIR का भाग होने के लिए किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। अन्य CAIR प्रदाता, स्कूल, और स्वास्थ्य अधिकारियों के पास अपनेआप आपके या आपके बच्चे के रिकॉर्ड्स का एक्सेस होता है।

यदि आप आपके या आपके बच्चे के रिकॉर्ड्स देख सकने वाले व्यक्तियों को सीमित करना चाहते हैं, तो:

1. अपने प्रदाता से जांचें कि क्या वे CAIR में आपके रिकॉर्ड्स लॉक कर सकते हैं
2. यदि आपका प्रदाता ऐसा नहीं कर सकता, तो आप CAIRweb.org/cair-forms में मेरा CAIR रिकॉर्ड लॉक करें फॉर्म को भरकर ऐसा करने का निवेदन कर सकते हैं।
3. आपका विचार बदलने पर आप मेरा CAIR रिकॉर्ड अनलॉक करें फॉर्म को भरकर ऐसा करने का निवेदन कर सकते हैं।
4. प्रिंट किए गए फॉर्म को 1-888-436-8320 पर फ़ैक्स करें, या उन्हें CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov में ईमेल से भेजें।

ज्यादा जानकारी के लिए 800-578-7889 या CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov पर CAIR हेल्प डेस्क से संपर्क करें।